

चार होने की संभावना विद्यमान है। अवैध शस्त्रों के निर्माण के लिए कच्चात शस्त्रों की भी छानबीन की जानी चाहिए और अत्याचारों को करने के लिए आपूर्ति करने वाले साधनों को समाप्त किया जाना चाहिए। उनको बाहर से हथियारों को तस्करी को रोकने के लिए भी कहा गया है। लाइसेंस शुदा व्यापारियों और लाइसेंस शुदा उत्पादकों की बारम्बार और सवधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। अवैध शस्त्रों और गोला बारूद का पता लगाने के संबंध में राज्य सरकारों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सभाक भी भेजे गए हैं।

(1) पुलिस मुख्यालय में केवल गैर-लाइसेंस शुदा निर्माण, विक्री और शस्त्र गोला-बारूद और विस्फोटकों को रखने की समस्या को हल करने के लिए एक छोटे कक्ष का सृजन किया जाये।

(2) गैर लाइसेंसशुदा निर्माण और अग्नेयस्त्रों और गोला-बारूद की विक्री का पता लगाने के लिए विशेष प्रयत्न करने के लिए सभी उप-मंडलीय पुलिस अधिकारियों और सभी धाना प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए जायें।

(3) इस संबंध में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त प्रस्कार दिए जायें। गैरलाइसेंस शुदा शस्त्रों और विस्फोटकों की बरामदगी को सूचना देने वाले व्यक्तियों को भी उपयुक्त नकद प्रस्कार दिये जायें, ऐसे व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाए।

(4) राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित अवधि में गैर-लाइसेंस शुदा हथियारों को स्वेच्छा से समर्पण करने वाले व्यक्तियों को क्षमा करने के प्रश्न पर विचार किया जाये।

(5) अवैध शस्त्रों के बरामद करने के लिए राज्यों में शुरू किए गए विशेष अभियान के अंग के रूप में छात्रों के छात्रावासों से अग्नेयस्त्रों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

Refugees from Burma.

4059. SHRI CHINGWANG KONYAK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that refugees had come to Nagaland from Burma for seeking safety and protection;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the total number of refugees from Burma crossing over to Nagaland?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). Yes, Sir. According to the State Government 1362 such refugees belonging to the Khemungan tribe crossed over to Nagaland since April, 1980. Of these, 682 are reported to have returned so far.

Proposal for Employment and Welfare of women in the Sixth Plan

4060. SHRI AJIT KUMAR SAHA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what are the recommendations put forward by the women organisations before the Planning Commission for the employment and welfare of women in the Sixth Five Year Plan,

(b) whether any of the recommendations has been accepted; and

(c) if so, what are these?

THE MINISTER OF PLANNING AND LABOUR (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) Replacement of family/household approach in programmes with women as a target group, special component approach with earmarked resources in all sectoral plans and programmes in the centre and the states, provision of a network of child care centres within the minimum needs programme, expansion of training opportunities for women particularly in agriculture and agro-based industries emphasis on